

**भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा**

अतारांकित प्रश्न सं. 1781

01 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत राजस्थान को आवंटित धनराशि

1781. श्री अमरा राम:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्ष 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत राजस्थान को जिला-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;
- (ख) उक्त योजना के अंतर्गत निर्मित/पूर्ण किए गए आवासों की जिलावार संख्या कितनी है; और
- (ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों का भुगतान अभी भी लंबित है और यदि हां, तो इसका जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)**

(क) से (ग) : 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाओं को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) देश भर के शहरी क्षेत्रों में पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए 25 जून, 2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को पूरा करने में सहायता करता है। इस योजना को चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी), स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस)के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

दिनांक 22.07.2024 की स्थिति के अनुसार, पीएमएवाई-यू के तहत राजस्थान राज्य के लिए कुल 3,19,863 आवासों को संस्वीकृत किया गया है, जिनमें से 2,64,357 आवासों का निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है और 1,91,971 आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है/लाभार्थियों को सुपुर्द किए जा चुके हैं। राजस्थान में अनुमोदित केंद्रीय सहायता के साथ स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण हो चुके आवास/लाभार्थियों को सुपुर्द किए गए आवासों की संख्या का जिला-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

पीएमएवाई-यू के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को योजना दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत अनुपालन के आधार पर आवासों के निर्माण के लिए तीन किस्तों 40%, 40% और 20% में केंद्रीय सहायता जारी की जाती है। पीएमएवाई-यू के एएचपी/बीएलसी/आईएसएसआर घटक के तहत आवासों के निर्माण के लिए राजस्थान राज्य को कुल 2,354.38 करोड़ संस्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 1,186.68 करोड़ जारी किए जा चुके हैं। वर्तमान में राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए)/राज्य कोषागार के खातों में व्यय के लिए 200.13 करोड़ रु. की खर्च न की गई शेष राशि उपलब्ध है।

**दिनांक 01.08.2024 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1781 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक
राजस्थान के लिए अनुमोदित केंद्रीय सहायता सहित संस्वीकृत, निर्मित और पूर्ण आवास/लाभार्थियों को सुपुर्द किए गए आवासों की संख्या का
जिला-वार विवरण**

क्र. सं.	ज़िला	संस्वीकृत मकान (संख्या में)	निर्माणाधीन आवास (संख्या में)	पूर्ण/सुपुर्द किए गए आवास (संख्या में)	संस्वीकृत केंद्रीय सहायता (करोड़ रु. में)
1	अजमेर	10,578	8,841	6,448	195.04
2	अलवर	9,002	8,695	8,375	212.89
3	अनूपगढ़	675	629	409	11.86
4	बालोतरा	3,303	2,380	1,621	51
5	बांसवाड़ा	2,096	1,601	987	36.93
6	बारां	3,868	2,659	1,722	62.44
7	बाड़मेर	2,365	2,233	1,293	44.63
8	ब्यावर	2,848	2,609	1,472	49.31
9	भरतपुर	3,940	2,154	1,553	63.68
10	भीलवाड़ा	12,614	11,639	10,328	259.26
11	बीकानेर	9,860	6,616	4,407	171.23
12	बूंदी	5,055	4,469	1,343	78.69
13	चित्तौड़गढ़	7,837	6,545	4,322	146.2
14	चुरू	3,468	2,550	1,433	54.34
15	दौसा	2,313	1,731	824	38.38
16	डीग	512	347	154	7.9
17	धौलपुर	6,069	3,411	897	91.82
18	डीडवाना कुचामन	1,694	1,527	1,067	27.58
19	दूदू	1,050	0	0	15.75
20	डूंगरपुर	1,207	1,048	584	20.98
21	गंगानगर	8,343	7,023	5,062	158.21
22	गंगापुरसिटी	1,861	1,272	234	28.84
23	हनुमानगढ़	6,546	5,044	3,178	115.1
24	जयपुर	77,693	76,155	72,123	1,598.68
25	जयपुर ग्रामीण	2,646	1,819	1,286	44.81
26	जैसलमेर	2,560	1,092	285	38.94
27	जालोर	1,987	1,327	597	32.67
28	झालावाड़	3,409	3,028	1,834	55
29	झुंझुनू	3,255	2,081	1,467	51.17
30	जोधपुर	37,160	26,339	9,459	624.06
31	जोधपुर ग्रामीण	2,554	1,404	771	39.14
32	करौली	5,445	1,955	293	82.24
33	केकड़ी	2,954	1,663	695	44.78
34	खैरथल-तिजारा	6,615	5,990	5,803	144.09
35	कोटा	15,982	15,120	11,787	294.29
36	कोटपूतली-बहरोड़	2,373	1,804	1,441	42.7
37	नागौर	2,530	2,231	1,786	45.47
38	नीम का थाना	909	779	315	14.66
39	पाली	6,914	5,846	3,183	118.43
40	फलोदी	683	450	95	10.53
41	प्रतापगढ़	1,564	1,207	817	32.83
42	राजसमंद	3,188	3,002	1,990	52.28
43	सलूमबर	422	251	186	7.33
44	सांचोर	1,510	1,321	359	23
45	सवाई माधोपुर	3,910	1,810	521	59.66
46	शाहपुरा	299	135	88	4.77
47	सीकर	7,373	6,805	6,050	151.39
48	सिरोही	3,378	2,721	1,373	55.25
49	टोंक	2,689	1,969	940	43.38
50	उदयपुर	12,757	11,030	8,714	237.86
	कुल	3,19,863	2,64,357	1,91,971	5,891.46